

मुरादाबाद : नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, चार पर मुकदमा

अमृत विचार 29, March, 2022, 7:05 pm



मुरादाबाद, अमृत विचार। कटघर पुलिस ने स्पलीट (ईएनए) से बनी नकली शराब और नकली क्यूआर कोड के साथ दो आरोपियों को स्कार्पियो समेत गिरफ्तार किया है। मामले में चार आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्य दोनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

इंस्पेक्टर कटघर आरपी शर्मा ने बताया कि रात 10:30 बजे काशीपुर तिराहा चौकी प्रभारी पंकज शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग श्री लालधाम मंदिर के पास स्थित खंडहर में अवैध शराब बनाकर स्कार्पियो से ले जाने वाले हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां दो लोग स्कार्पियो में कुछ सामान रख रहे थे। पुलिस ने दोनों को दबोच लिया।

Source: <https://amritvichar.com/moradabad-fake-liquor-factory-busted-two-accused-arrested-four-on-trial/>